



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 24 राँची, गुरुवार,

10 जनवरी, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 दिसम्बर, 2018

विषय: कोल्हान, पलामू, संथाल परगना एवं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय विकास प्राधिकार हेतु विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में।

संख्या- 06A/न०वि०/Development Authority-46/2015-...6119...नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-6056, 6057, 6058 एवं 6059, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 द्वारा क्रमशः कोल्हान, पलामू, संथाल परगना एवं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया गया है।

2. गठित किए गए नवीन प्राधिकारों के उद्देश्य, शक्ति, विविध कार्यों के लिए प्रक्रिया एवं विहित रीति झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होंगे तथा राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इन प्राधिकारों को अन्य कार्यों के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगी।

3. प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2018 में विधिवत् स्वीकृत कोल्हान, पलामू, संथाल परगना एवं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के लिए विभिन्न स्कंधों के सम्मुख अंकित संख्या में निम्नांकित पदों का सृजन किया जाता है:-

क्र०	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान/ग्रेड
A. सामान्य स्कन्ध			
1	उपाध्यक्ष	01	Ex- Cadre
2	सचिव	01	PB III 15600-39100 GP – 7600
3	लेखापाल	01	PB I 5200-20200 GP – 2400
4	आशुलिपिक	02	PB I 5200-20200 GP - 2400
5	उच्चवर्गीय लिपिक	01	PB I 5200-20200 GP - 2400
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	JAP-IT द्वारा निर्धारित मासिक वेतन के आधार पर
7	लिपिक	02	PB II – 5200-20200 GP - 1900
	कुल -	09	
B. तकनीकी स्कन्ध			
1	कार्यपालक अभियंता	01	PB III 15600-39100 GP – 6600
2	सहायक अभियंता	02	PB II 9300-34800 GP – 5400
3	कनीय अभियंता	06	PB II 9300-34800 GP - 4200
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	JAP-IT द्वारा निर्धारित मासिक वेतन के आधार पर
	कुल -	10	
C. निवेशन स्कन्ध			
1	मुख्य नगर निवेशक	01	PB IV 37400-67000 GP – 8900
2	नगर निवेशक	02	PB IV 37400-67000 GP – 8700
3	साहचर्य नगर निवेशक	02	PB III 15600-39100 GP – 7600
4	कार्यपालक नगर निवेशक	03	PB III 15600-39100 GP – 6600
5	सहायक नगर निवेशक	04	PB II 9300-34800 GP - 5400
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	JAP-IT द्वारा निर्धारित मासिक वेतन के आधार पर
	कुल -	14	
	कुल योग स्कन्ध (A+B+C)	33	

उपरोक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति मद संख्या-18 के रूप में सम्मिलित करते हुए दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव
